

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।**

पत्रांक - ...३३४...../सिकहरना, ढाका, दिनांक-...०१.०६.२०२३

**प्रेषक :-**

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

**सेवा में,**

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
विश्वसरैया भवन, पाच्चा तल्ला, बिहार, पटना।

**विषय :-**


M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना हेतु आवंटन अधियाचना के संबंध में।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडलान्तर्गत M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना के अधीन कराये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान हेतु आवंटन अधियाचना विहित-प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

**अनुलग्नक :-** यथोक्त।

विश्वासभाजन


  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
सिकहरना, ढाका।



**Rural Works Department**  
**Requisition Formate for Scheme Head-MR(3054) under Bihar Rural New Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)**  
 Name of the Division :- Rural Works Department, Works Div. Dhaka

Sl.	Package No.	Name of Road	Project id as per MIS	A/A Letter No. & Date	Administrative Approval		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Alloted Amount (In Lakh)	Up-to date expenditure as per MIS	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount (In Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (In Lakh)	5 Year Routine Maintenance (In Lakh)										
1	RM/EA/SIK/23/0001	GBC Road Bankatwa to Sunderpur via Baluadhanukhi	31708608148	1581/30.03.2022	5.000	330.15700	262.37653	56.23870	21 MBD-24.12.2022	23.09.2023		3353	25	5	0.00	0.00	259.47632	
2		Ghorasahan Main road to Baya Muhalla under Ghorasahan Block	31708601020		0.420	34.71800	32.55993	2.31709		23.09.2023		3664	25	5	0.00	0.00	32.20956	
Total :-															0.00	0.00	291.68588	

प्रमाणित किया जाता है कि पथ में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कनीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

  
 Divisional Accounts Officer  
 Rural Works Div, Dhaka

  
 Executive Engineer 80.5.23  
 RWD (W) Div. Dhaka

Kind of Checks Exercised :-

(i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer



**FORM GFR 19-A**  
(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)  
**Form of Utilization Certificate Upto the Month of upto.....**  
**MR-3054 (New Maintenance Policy)**

**PIU :- EE RWD (W) DIVISION DHAKA**

Sl.	Name of the Scheme	Sanction No. & Date with Amount (Rs. In Lakh)	Amount Received (Rs. In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 (New maintenance Policy)			Certified that out of Rs. ....Nil..... Lacs received the year 2023-24 in favor of Executive Engineer, R.W.D. (W), Division Dhaka a sum of Rs ....Nil..... lacks has been utilized for the purpose of MR-3054 (New Maintenance Policy) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs.....Nil..... Remaining unutilized at the end of the period under.
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

  
**Divisional Account Officer**


**R.W.D. (W) Div., Dhaka**

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conduct by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal Formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

  
**Executive Engineer**  
**R.W.D.(W) Div., Dhaka**



Name of Customer : M/S Dhirendra Const. Pvt. Ltd.

Name of Work/ Road : Ghorasahan Main Road to Baya

Lab Job number :

Date : 22-05-2023

Section No. : 56

Test Date : 22-05-2023

Machine No : 437

Start S No :

Start E No :

Weather : Normal

Start Location :

End Location :

Road Name : halla Under Ghorasahan Block

Road Type : (R) RURAL ROAD

Side :

UIV Range : 2568 To 5000 Interval 1000 mm/km

Dist Range : 0 To 0.6 Interval 0.1 \* 1000 m

Equation :  $Y = 0 * X^2 + 0.954 * X + 134.5$

Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : D:\2023 Office\Bump Integrator\ Dhaka div Rd Bump\2. Dhaka Div Rd Bump 2023\Rd 2 new Dhirendra Dhaka\b

Name of Customer : M/S Dhirendra Const. Pvt. Ltd. Name of Work/ Road : Ghorasahan Main Road to Baya Muhalla

UIV  
mm/  
km 3568

2568

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Distance \* 1000 m

Subendra KV  
22.05.23  
J.E

Hah  
31/05/2023  
AE

~~Subendra~~  
31.5.23

of Road :- Ghorasahan Main Road to Baya Muhalla Under Ghorasahan Block  
 Contractor Name:- M/S Dharendra Construction Pvt. Ltd.

Scheme:- MR New Maintenance Policy  
 Division:- Dhaka

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event	
22/5/23	16:39:16	56	0.1	370	0	3700	3664	G	26.828048	85.131027	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.954 * X + 134.5$
22/5/23	16:39:16	56	0.1	370	20.2	3700	3664	G	26.827447	85.131835	Normal	X = 11695
22/5/23	16:40:00	56	0.1	360	20.2	3600	3568	G	26.826813	85.132625	Normal	Y = 11291
22/5/23	16:40:27	56	0.1	360	20.2	3600	3568	G	26.82621	85.1334	Normal	(R) RURAL ROAD
22/5/23	16:40:27	56	0.02	390	20.2	3900	3855	G	26.82621	85.1334	Normal	Good Average Poor
Total:-							18319					
Avg IRI :-							3664					

Subendrakr  
 22.05.23  
 J.E

Hab  
 31/05/2023  
 AE.

~~Subendrakr~~  
 31.5.23  
 CE